



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA

[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

कृषेम.सं. ई-मेल द्वारा/09.06.002/2021-22

18 अगस्त 2021

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) और राज्य सहकारी बैंक

महोदय / महोदया

**एफपीओ के वित्तपोषण पर कार्यशाला (13 से 14 सितंबर 2021)**

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे द्वारा **एफपीओ के वित्तपोषण पर 13 से 14 सितंबर 2021 के दौरान दो-दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला** का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला का प्रयोजन किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के वित्तपोषण पर बैंकरों को जानकारी प्रदान करना है।

**2. कार्यशाला के उद्देश्य:**

- किसान सामूहिकों पर नीतिगत पहलों का विहंगावलोकन प्रदान करना।
- एफपीओ के वित्तपोषण में व्यावसायिक अवसरों पर ज्ञान प्रदान करना।
- एफपीओ के मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण और वित्तपोषण में वैकल्पिक क्रेडिट मॉडल और अवसरों की जानकारी प्रदान करना।

3. यह कार्यक्रम **CISCO Webex** प्लैटफॉर्म पर सुबह 10.00 से शाम 17.30 के बीच कुल 10 घंटों के लिए (75 मिनट के कुल 8 सत्र) (प्रतिदिन पाँच घंटे) आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागी कैमरे से लैस किसी भी डिवाइस (लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन आदि) और अच्छी इंटरनेट सुविधा के द्वारा इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। **Webex** प्लैटफॉर्म से जुड़ने के बारें में विवरण प्रतिभागियों को यथासमय दिया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय कार्यालय / विभाग के लिए लागू निर्देशों के अनुसार अपने घर या कार्यालय से भाग लिया जा सकता है।

4. **लक्ष्य समूह:** यह कार्यक्रम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित) और राज्य सहकारी बैंकों के कृषि वित्तपोषण से संबंधित अधिकारियों के लिए बनाया गया है।

**5. कार्यक्रम की सामग्री: कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया है:**

- किसान कलेक्टिव पर नीतिगत पहलों का अवलोकन

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 (महाराष्ट्र) भारत

फोन : (91-020) 25582361 फैक्स : (91-020)25538959 ई-मेल: [principalcab@rbi.org.in](mailto:principalcab@rbi.org.in)

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016, (Maharashtra), INDIA

Phone : (91-020) 25582361 Fax : (91-020) 25537756E-mail : [principalcab@rbi.org.in](mailto:principalcab@rbi.org.in)

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

- विभिन्न कृषि उत्पादों में लगे एफपीओ के वित्तपोषण के व्यावसायिक अवसर
- एफपीओ को ऋण का मूल्यांकन
- सफलता की कहानियां और अनुभव साझा करना
- एग्री वैल्यू चेन फाइनेंसिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आदि वैकल्पिक डिलीवरी मॉडल के साथ एकीकरण

6. इस कार्यक्रम के कार्यक्रम निदेशक डॉ ए वी रविंद्रप्रसाद ([avravindrprasad@rbi.org.in](mailto:avravindrprasad@rbi.org.in)) और श्रीमती आनंथि एस ([ananthi@rbi.org.in](mailto:ananthi@rbi.org.in)) है।

7. आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के लिए आप अपने बैंक/संस्था से उपयुक्त अधिकारियों का नामांकन 06 सितंबर 2021 तक भेजें। प्रतिभागिता शुल्क का विवरण एवं नामांकन फॉर्म इस पत्र के संलग्न किए गए हैं। नामांकन ई-मेल से [nomination.ami@rbi.org.in](mailto:nomination.ami@rbi.org.in) पर भेज सकते हैं।

**कृपया ध्यान दें: प्रतिभागिता शुल्क का भुगतान महाविद्यालय द्वारा नामांकन का पुष्टीकरण होने के बाद ही करें।**

8. नामांकन संबंधी जानकारी के लिए आप नामांकन डेस्क (श्रीमती सुजाता घाटे) से उनके मोबाइल नंबर - 9820837693 या ई-मेल से [nomination.ami@rbi.org.in](mailto:nomination.ami@rbi.org.in) पर संपर्क कर सकते हैं।

स्मरण हेतु महत्वपूर्ण तिथियां	
कार्यक्रम की तिथि	13 से 14 सितंबर 2021
कार्यक्रम का समय	सुबह 10.00 से शाम 17.30 बजे तक (75 मिनट के प्रतिदिन कुल 4 सत्र)
नामांकन भेजने की अंतिम तारीख	06 सितंबर 2021
कार्यक्रम का समापन	14 सितंबर 2021 को शाम 17.30 बजे (मंगलवार)

भवदीय

(डॉ ए वी रविंद्रप्रसाद)

कार्यक्रम निदेशक

मोबाइल नंबर: 9866249602

संलग्न : यथोक्त

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 (महाराष्ट्र) भारत  
फोन : (91-020) 25582361 फैक्स : (91-020)25538959 ई-मेल: [principalcab@rbi.org.in](mailto:principalcab@rbi.org.in)

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016, (Maharashtra), INDIA

Phone : (91-020) 25582361 Fax : (91-020) 25537756E-mail : [principalcab@rbi.org.in](mailto:principalcab@rbi.org.in)

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

**फीस संरचना**  
**एफपीओ के वित्तपोषण पर कार्यशाला**  
**(13 से 14 सितंबर 2021)**

क्र. सं.	समूह	प्रति प्रतिभागी कुल ट्यूशन फ़ीस (कुल घंटे = 10) (रु.)
1	समूह 1 – वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थान	3000
2	समूह 2 – 100 करोड़ रुपए से अधिक के जमा आधार के साथ अनुसूचित यूसीबी, गैर-अनुसूचित यूसीबी, आरआरबी, स्थानीय क्षेत्र बैंक, राज्य सहकारी बैंक और एनबीएफ़सी	2000
3	समूह 3 – 100 करोड़ रुपए से कम के जमा आधार वाले गैर-अनुसूचित यूसीबी, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, सरकारी विभाग, डीसीसीबी, गैर-सरकारी संगठन, राज्य स्तरीय एफ़आई, गैर-एनबीएफ़सी एमएफ़आई और प्रमाणित क्रेडिट काउंसलर	1000

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 (महाराष्ट्र) भारत  
फोन : (91-020) 25582361 फ़ैक्स : (91-020)25538959 ई-मेल: [principalcab@rbi.org.in](mailto:principalcab@rbi.org.in)

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016, (Maharashtra), INDIA  
Phone : (91-020) 25582361 Fax : (91-020) 25537756E-mail : [principalcab@rbi.org.in](mailto:principalcab@rbi.org.in)

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये